

**MARKING SCHEME BSEH PRACTICE PAPER 1, 9TH MATHS , March2025
(HINDI MEDIUM)**

Q. no.	Expected solutions	marks
Section-A		
1	(C) $\sqrt{9}$	1
2	(B) 40°	1
3	(C) SSA	1
4	(D) 3.4 cm	1
5	(A) 75°	1
6	T	1
7	(A) 24 cm^2	1
8	C) आधा	1
9	(A) 137.5	1
10	(D) 2	1
11	(D) 7	1
12	(B) 3	1
13	(A) - 6	1
14	(B) $\pi r(l + \frac{r}{4})$	1
15	(A) 65°	1
16	360^0	1
17	(B) 50°	1
18	90°	1
19	D) A असत्य है लेकिन R सत्य है	1
20	B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।	1
SECTION-B		
21.	<p>हम जानते हैं कि $5+1=6$</p> <p>$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{18}{30}$ और $\frac{4}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{24}{30}$</p> <p>.....</p> <p>पांच परिमेय संख्याएँ = $\frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30}$</p>	<p>1</p> <p>1</p>
22.	<p>$(3\sqrt{5} - 5\sqrt{2})(4\sqrt{5} + 3\sqrt{2})$</p> <p>$3\sqrt{5}(4\sqrt{5} + 3\sqrt{2}) - 5\sqrt{2}(4\sqrt{5} + 3\sqrt{2})$</p> <p>.....</p>	1

	$60+9\sqrt{10}-20\sqrt{10}-30$ $30-11\sqrt{10}$ <p style="text-align: center;">OR</p> <p>.....</p> $(7)^{\frac{1}{3}} \times (8)^{\frac{1}{3}}$ $(7 \times 8)^{\frac{1}{3}}$ <p>.....</p> $(56)^{\frac{1}{3}}$	1
23.	$\frac{1}{7+3\sqrt{2}} \times \frac{7-3\sqrt{2}}{7-3\sqrt{2}}$ $= \frac{7-3\sqrt{2}}{(7-3\sqrt{2})(7+3\sqrt{2})}$ <p>.....</p> $\frac{7-3\sqrt{2}}{49-18}$ $= \frac{7-3\sqrt{2}}{31}$	1
24.	104×97 $104 \times 97 = (100+4) \times (100-3)$ <p>यहाँ, $x = 100$, $a = 4$, $b = -3$</p> <p>सर्वसमिका , $(x+a) (x+b) = x^2 + (a+b) x + ab$ द्वारा</p> <p>.....</p> $= (100)^2 + (4-3)100 + (4 \times -3)$ $= 10000 + 100 - 12$ $= 10088$	1
25.	<p>यदि $x = 2$, $p(x)$ का एक गुणनखंड है तो $P(2) = 0$</p> <p>गुणनखंड प्रमेय द्वारा</p> $p(2) = 4(2)^3 - 3(2)^2 - 4(2) + 3k = 0$ <p>.....</p>	1

	$= 32-12-8+3k=0$ $=12+3k=0$ $3k= -12$ $K= - 4$ <p>.....OR.....</p> <p>$x-3 =0$ लेने पर $x = 3$</p> <p>$x=3$ बहुपद में रखने पर $(3)^3-4(3)^2+3+6$</p> <p>.....</p> $= 27-36+3+6= 0$ <p>अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा $x-3$, बहुपद x^3-4x^2+x+6 का एक गुणनखंड है।</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
--	---	----------------------------

SECTION-C

<p>26.</p>	<p>y, x के अनुक्रमानुपाती है</p> $\therefore y \propto x$ $\Rightarrow y = kx$ <p>.....</p> <p>$y=12$ रखने पर जब $x=4$ है</p> $12=4k$ $\Rightarrow k=3$ <p>.....</p> <p>इसलिए $y=3x$</p> <p>$x=5$ रखने पर $y=3 \times 5=15$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<p>27.</p>	<p>कैप्सूल का व्यास = 3.5 mm</p> <p>कैप्सूल की त्रिज्या = $\frac{3.5}{2}$ mm</p> <p>.....</p> <p>कैप्सूल में दवा का आयतन = $\frac{4}{3} \pi r^3$</p> <p>.....</p>	<p>1</p> <p>1</p>

	$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2}$ $= 22.46 \text{ मिमी}^2$ <p style="text-align: center;">.....OR.....</p> <p>माना चंद्रमा की त्रिज्या = r माना पृथ्वी की त्रिज्या = 4r</p> <hr/> <p>$\frac{\text{चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल}}{\text{पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल}} = \frac{4\pi r^2}{4\pi(4r)^2}$</p> <hr/> $= \frac{4\pi r^2}{64\pi r^2}$ $= \frac{1}{16} = 1:16$	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>
28.	<p>The expression $64m^3 - 343n^3$ can be written as $(4m)^3 - (7n)^3$</p> $64m^3 - 343n^3 = (4m)^3 - (7n)^3$ <hr/> <p>We know that, $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$</p> $= (4m-7n)[(4m)^2 + (4m)(7n) + (7n)^2]$ <hr/> $= (4m-7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>
29.	$2x + 3y = 12$	

	<p>X=0 रखने पर $2x0 + 3xY = 12$ $3Y = 12$ $Y=4$</p> <p>(i) पहला हल (0,4)</p> <p>.....</p> <p>X=1 रखने पर $2x1+ 3xY = 12$ $3Y=10$ $Y=\frac{10}{3}$</p> <p>(ii) दूसरा हल $(1, \frac{10}{3})$</p> <p>.....</p> <p>X=2 रखने पर $2x2 + 3Y= 12$ $3Y= 8$ $Y= \frac{8}{3}$</p> <p>(iii) तीसरा हल $(2, \frac{8}{3})$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
30.	<p>माना $x = 0.2\overline{35} = 0.2353535.....$ (i)</p> <p>(i) को 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर $10x = 2.353535.....$ (ii)</p> <p>.....</p> <p>(ii) को दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर $1000x = 235.353535.....$ (iii)</p> <p>.....</p> <p>(iii) - (ii) करने पर $990x = 233.0000$ $x = \frac{233}{990}$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
31.	<p>The expression, $8X^3 + 27Y^3 + 36X^2Y + 54XY^2$ can be written as $(2X)^3 + (3Y)^3 + 3(2X)^2(3Y) + 3(2X)(3Y)^2$</p> <p>.....</p>	<p>1</p>

.....
समीकरण (i) व (ii) से

$$AC=AC'$$

.....
 $\Rightarrow C=C'$


इसलिए C व C' एक ही बिंदु है अर्थात संपाती है ।

अतः एक रेखाखण्ड का एक ही मध्य बिंदु होता है ।

1

1

33



दिया हुआ है :- $a : b = 2 : 3$ तथा $\angle POY = 90^\circ$

.....
ज्ञात करना है :- a तथा b का मान ।

.....
हल :- $a : b = 2 : 3$ मान लीजिए $a=2x$ और $b=3x$ है

हम जानते हैं कि रैखिक युग्मों का योग हमेशा 180° के बराबर होता है

इसलिए, $\angle POY + a + b = 180^\circ$

जैसा कि प्रश्न में दिया गया है $\angle POY = 90^\circ$ का मान रखने पर,

$$a+b = 90^\circ$$

.....
 $\therefore 2x+3x = 90^\circ$ इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है

$$5x = 90^\circ$$

$$\text{So, } x = 18^\circ$$

$$\therefore a = 2 \times 18^\circ = 36^\circ$$

1

1

1

1

$$b = 3 \times 18^\circ = 54^\circ$$


आरेख से, $b+c$ भी एक सीधी रेखा पर कोण बनाता है,

$$\text{इसलिए, } b+c = 180^\circ$$

$$c+54^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore c = 126^\circ$$

OR.....



दिया हुआ है :- $AB \parallel CD$, $\angle APQ = 50^\circ$ तथा $\angle APR = 127^\circ$

ज्ञात करना है :- x तथा y का मान

हल :- $AB \parallel CD$ तथा PQ एक तिर्यक रेखा है (दिया हुआ है)

इसलिए, $\angle APQ = \angle PQR$ (अंतः एकांतर कोण)

$\angle APQ = 50^\circ$ और $\angle PQR = x$ का मान रखने पर

$$x = 50^\circ$$

$\angle APR = \angle PRD$ (अंतःएकांतर कोण)


$\angle APR = 127^\circ$ (क्योंकि $\angle PRD = 127^\circ$ दिया हुआ है)

हम वह जानते हैं $\angle APR = \angle APQ + \angle PQR$

अब, $\angle PQR = y$ और $\angle APR = 127^\circ$ का मान रखने पर,

	<p>.....</p> <p>शंकवाकार टोपी की तिर्यक ऊंचाई (L) = $\sqrt{(r)^2 + (h)^2}$ $= \sqrt{(7)^2 + (24)^2}$ $= \sqrt{49 + 576}$ $= \sqrt{625}$ $= 25$ सेमी</p> <p>.....</p> <p>10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल = $10 \pi rL$</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">$= 10 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 25$</p> <p style="text-align: right;">$= 5500$ वर्ग सेमी</p> <p>.....</p> <p>10 टोपियों का कुल मूल्य = $5500 \times 0.35 = 1925$ रु.</p> <p>.....</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
35.	<p>दिया गया है : AC = AD और रेखाखंड AB, $\angle A$ को समद्विभाजित करती है।</p> <p>.....</p> <p>सिद्ध करना है : $\triangle ABC \cong \triangle ABD$</p> <p>.....</p> <p>प्रमाण:</p> <p>त्रिभुजों $\triangle ABC$ और $\triangle ABD$ में</p> <p>(i) AC = AD (दिया गया है)</p> <p>(ii) AB = AB (उभयनिष्ठ)</p> <p>(iii) $\angle CAB = \angle DAB$ (क्योंकि AB कोण A का समद्विभाजक है)</p> <p>.....</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>


	इसलिए, $\Delta ABC \cong \Delta ABD$. (SAS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार)	1
	
	प्रश्न के दूसरे भाग के लिए, $BC = BD$ हैं। (C.P.C.T के नियम के अनुसार)	1
	SECTION-E	
36.	<p>(i) त्रिभुज ABC की भुजाएँ क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं</p> <p>अब, परिमाप $(122+22+120) = 264$ मीटर होगा</p> <p>.....</p> <p>(ii) Δ का क्षेत्रफल $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ जहाँ $s = (a+b+c)/2$</p> <p>.....</p> <p>(i) अर्द्ध परिमाप $(s) = 264/2 = 132$ मी.</p> <p>हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर,</p> <p>त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$</p> $= \sqrt{132(132-122)(132-22)(132-120)}$ $= \sqrt{132 \times 10 \times 110 \times 12}$ $= 1320 \text{ m}^2$ <p style="text-align: center;">OR</p> <p>हम जानते हैं कि प्रति वर्ष विज्ञापन का किराया = 5000 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>\therefore एक दीवार का 3 महीने का किराया = रु. $(1680 \times 5000 \times 3)/12$</p> $= \text{रु. } 2100000$	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>
37.	<p>(i) राहुल तथा नीतू के बीच की दूरी $= 2 - (-2) = 4$ इकाई</p> <p>.....</p>	1

	(ii) अंकित (III) तीसरे चतुर्थांश में बैठा है ।	1
 (iii) चार मित्रों के स्थानों को क्रम से मिलाने पर <u>आयत</u> की आकृति बनती है	2
	OR	
	(iii) लम्बाई = 8 इकाई चौड़ाई = 4 इकाई क्षेत्रफल = $8 \times 4 = 32$ वर्ग इकाई	2
38.	(i) राजनीतिक दल A ने सबसे अधिक सीटें जीतीं ।	1
	
	(ii) राजनीतिक दल E ने सबसे कम सीटें जीतीं ।	1
	
	(iii) दण्ड आलेख	
	 <p style="text-align: center;">(राजनीतिक दल)</p>	2

**MARKING SCHEME BSEH PRACTICE PAPER 1, 9TH MATHS , March2025
(ENGLISH MEDIUM)**

Q. no.	Expected solutions	marks
Section-A		
1	(C) $\sqrt{9}$	1
2	(B) 40°	1
3	(C) SSA	1
4	(D) 3.4 cm	1
5	(A) 75°	1
6	T	1
7	(A) 24 cm^2	1
8	C) Halved	1
9	(A) 137.5	1
10	(D) 2	1
11	(C) 2	1
12	(B) 3	1
13	(A) - 6	1
14	(B) $\pi r(l + \frac{r}{4})$	1
15	(A) 65°	1
16	360^0	1
17	(B) 50°	1
18	90°	1
19	D) A is false but R is true	1
20	B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.	1
SECTION-B		
21.	<p>We know that $5+1=6$</p> $\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{18}{30} \quad \text{and} \quad \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{24}{30}$ <p>.....</p> <p>Five Rational Numbers = $\frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30}$</p>	<p>1</p> <p>1</p>

	<p style="text-align: center;">.....OR.....</p> <p>Let radius of Moon = r Let radius of earth = 4r</p> <hr/> <p>$\frac{\text{Surface area of Moon}}{\text{Surface area of Earth}} = \frac{4\pi r^2}{4\pi(4r)^2}$</p> <hr/> <p style="text-align: center;">$= \frac{4\pi r^2}{64\pi r^2}$</p> <hr/> <p style="text-align: center;">$= \frac{1}{16} = 1:16$</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>
28.	<p>The expression $64m^3 - 343n^3$ can be written as $(4m)^3 - (7n)^3$</p> <p>$64m^3 - 343n^3 = (4m)^3 - (7n)^3$</p> <hr/> <p>We know that, $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$</p> <p>$= (4m-7n)[(4m)^2 + (4m)(7n) + (7n)^2]$</p> <hr/> <p>$= (4m-7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>
29.	<p>$2x + 3y = 12$</p> <p>By taking $X=0$ we get $2x0 + 3xY = 12$</p> <p style="text-align: center;">$3Y = 12$</p> <p style="text-align: center;">$Y=4$</p> <p>(i) First Solution (0,4)</p> <hr/> <p>By taking $X=1$ we get $2x1 + 3xY = 12$</p> <p style="text-align: center;">$3Y=10$</p> <p style="text-align: center;">$Y = \frac{10}{3}$</p> <p>(ii) Second solution $(1, \frac{10}{3})$</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>

	$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ $=(2X+Y+3Z)((2X)^2 + Y^2 + (3Z)^2 - 2XY - Y(3Z) - 3Z(2X))$ <p>.....</p> $(2X+Y+3Z)(4X^2 + Y^2 + 9Z^2 - 2XY - 3YZ - 6ZX)$	1
		1
SECTION-D		
32.	<p>Let there are two mid points C and C' of line AB</p> <p>.....</p> <p>If C is mid point of line AB then , AC=BC</p> $\Rightarrow AC = \frac{1}{2}AB \text{(i)}$ <p>.....</p> <p>If C' is mid point of line AB then , AC'=BC'</p> $\Rightarrow AC' = \frac{1}{2}AB \text{(ii)}$ <p>.....</p> <p>From (i) and (ii) AC=AC'</p> <p>.....</p> $\Rightarrow C=C'$ <p>Therefore C and C' are same point Hence there is one and only one mid point of a line.</p>	1 1 1 1
33	 <p><u>Given</u> :- $a : b = 2 : 3$ and $\angle POY = 90^\circ$</p> <p>.....</p> <p><u>To Find</u> :- The value of a and b.</p> <p><u>Solution</u> :- $a : b = 2 : 3$ Let $a = 2x$ and $b = 3x$</p> <p>We know that sum of angles of linear pair are 180°</p>	1 1

therefore, $\angle POY + a + b = 180^\circ$

As given in question, by putting $\angle POY = 90^\circ$

$$\Rightarrow a + b = 90^\circ$$

$$\therefore 2x + 3x = 90^\circ$$

$$\Rightarrow 5x = 90^\circ$$

$$\text{So, } x = 18^\circ$$

$$\therefore a = 2 \times 18^\circ = 36^\circ$$

$$b = 3 \times 18^\circ = 54^\circ$$


In fig. $b + c$ is on Straight line

therefore, $b + c = 180^\circ$

$$c + 54^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore c = 126^\circ$$

OR



Given :- $AB \parallel CD$, $\angle APQ = 50^\circ$ and $\angle APR = 127^\circ$


To Find :- The value of x and y

Solution :- $AB \parallel CD$ and PQ is a transversal line. (Given)


$\angle APQ = \angle PQR$ (Alternate Angles)

By putting $\angle APQ = 50^\circ$ and $\angle PQR = x$

	<p>$x = 50^\circ$</p> <p>.....</p> <p>Also $\angle APR = \angle PRD$ (Alternate Angles)</p> <p>Or, $\angle APR = 127^\circ$ (Given $\angle PRD = 127^\circ$)</p> <p>.....</p> <p>We know that $\angle APR = \angle APQ + \angle QPR$</p> <p>Now by putting values, $\angle QPR = y$ and $\angle APR = 127^\circ$</p> <p>We get $50^\circ + y = 127^\circ$</p> <p style="padding-left: 40px;">$y = 77^\circ$</p> <p style="padding-left: 40px;">$x = 50^\circ$ and $y = 77^\circ$</p>	<p>1</p> <p>1</p>
34.	<p>Let three sides of triangle $12x, 17x, 25x$</p> <p>Semi perimeter $(s) = \frac{540}{2} = 270$ cm</p> <p>.....</p> <p>$s = \frac{a+b+c}{2}$</p> <p>$270 = \frac{12x+17x+25x}{2}$</p> <p>$54x = 540$</p> <p>$x = 10$</p> <p>.....</p> <p>First Side = $12 \times 10 = 120$ cm</p> <p>Second Side = $17 \times 10 = 170$ cm</p> <p>Third Side = $25 \times 10 = 250$ cm</p> <p>.....</p> <p>Area of $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$</p> <p style="padding-left: 40px;">$= \sqrt{270(270-120)(270-170)(270-250)}$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

	$= \sqrt{270(150)(100)(20)}$ $= 9000 \text{ cm}^2$ <p style="text-align: center;">OR</p>	1
34.	<p>Radius of conical cap (r) = 7 cm Height of conical cap (h) = 24 cm</p> <hr/> <p>Slant height of conical cap (L) = $\sqrt{(r)^2 + (h)^2}$ $= \sqrt{(7)^2 + (24)^2}$ $= \sqrt{49 + 576}$ $= \sqrt{625}$ $= 25 \text{ cm}$</p> <hr/> <p>Required area of sheet to make 10 caps = $10 \pi rL$</p> <hr/> $= 10 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 25$ $= 5500 \text{ cm}^2$ <hr/> <p>Total cost of 10 caps = $5500 \times 0.35 = 1925 \text{ Rs.}$</p>	1 1 1 1
35.	 <p><u>Given</u> :- AC = AD line AB bisect $\angle A$</p>	1

	<p>.....</p> <p><u>To Prove :- $\Delta ABC \cong \Delta ABD$</u></p> <p>.....</p> <p>Proof:- In ΔABC and ΔABD</p> <p>(i) $AC = AD$ (Given)</p> <p>(ii) $AB = AB$ (Common)</p> <p>(iii) $\angle CAB = \angle DAB$ (Because AB is bisector of $\angle A$ Given)</p> <p>.....</p> <p>Hence, $\Delta ABC \cong \Delta ABD$. (By S.A.S)</p> <p>.....</p> <p>Hence $BC = BD$ (By C.P.C.T)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
SECTION-E		
36.	<p>(i) Sides of Triangle ABC 122m, 22m and 120m</p> <p>Perimeter of Triangle = $(122+22+120) = 264m$</p> <p>.....</p> <p>(ii) $Area\ of\ \Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ Where $S = \frac{a+b+c}{2}$</p> <p>.....</p> <p>(i) Semi Perimeter $(s) = 264/2 = 132$ मी.</p> <p>$Area\ of\ \Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$</p> <p style="text-align: center;">$= \sqrt{132(132-122)(132-22)(132-120)}$</p> <p style="text-align: center;">$= \sqrt{132 \times 10 \times 110 \times 12}$</p> <p style="text-align: center;">$= 1320\ m^2$</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>We know Rent of Advertisement per year = $5000\ m^2$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>

	<p>\therefore Rent of 3 months of the wall = Rs.(1680×5000×3)/12= Rs. 2100000</p>															
37.	<p>(i) Distance between Rahul and Neetu = $2 - (-2) = 4$ Unit</p> <p>.....</p> <p>(ii) Ankit is sitting in (III) third quadrant</p> <p>.....</p> <p>(iii) By joining four places in order we get a rectangle</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(iii) Length = 8 Units Breadth = 4 Units</p> <p style="padding-left: 40px;">Area = $8 \times 4 = 32 \text{ m}^2$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>														
38.	<p>(i) Political Party A won maximum number of Seats.</p> <p>.....</p> <p>(ii) Political party E won minimum number of seats.</p> <p>.....</p> <p>(iii) Bar Graph</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for Bar Graph</caption> <thead> <tr> <th>Political Party</th> <th>Seats won</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Political Party	Seats won	A	75	B	55	C	38	D	30	E	10	F	38	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>
Political Party	Seats won															
A	75															
B	55															
C	38															
D	30															
E	10															
F	38															